

# एलेनोर रूजवेल्ट


## और डरावना तहखाना

पीटर मर्चेन्ट, चित्र : अन्ना डिविटो



एलेनोर रूजवेल्ट

और डरावना तहखाना




Merchant

पीटर मर्चेन्ट, चित्र : अन्ना डिविटो

जब वो छोटी लड़की थी,  
तब एलेनोर रूजवेल्ट  
हर चीज से डरती थी.





उसने कभी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया.  
एलेनोर बहुत सी चीज़ों से डरती थी.

एलेनोर नावों से डरती थी.  
उसे पानी में गिरने का डर था.



वो चूहों से डरती थी.  
वो घोड़ों से डरती थी.  
वो लुटेरों से डरती थी.





लेकिन सबसे ज़्यादा, एलेनोर  
अंधेरे से डरती थी.

यह एक बड़ी समस्या थी,  
क्योंकि वो एक बहुत ही  
अंधेरे घर में रहती थी.



फिर भी, एलेनोर को उसका घर पसंद था.  
उसकी आंटी एडिथ भी वहीं रहती थीं.  
एलेनोर, एडिथ आंटी से प्यार करती थी,  
और उसे आंटी को खुश करना पसंद था.


एक रात, सभी के सोने के बाद,  
एलेनोर की आंटी ने उसे बुलाया.  
"एलेनोर!" वो अँधेरे में चिल्लाई.  
"सुनो, एलेनोर!"



एलेनोर ने अपनी आँखें खोलीं.  
वो अपने बिस्तर से उठना नहीं चाहती थी,  
लेकिन वह अपनी आंटी की  
उपेक्षा भी नहीं कर सकती थी.  
वो जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए.



एलेनोर अँधेरे में  
बहुत धीरे-धीरे चलते हुए  
आंटी एडिथ के कमरे तक पहुँची.



वहाँ अंधेरे कमरे में उसकी प्यारी आंटी लेटी थीं.  
वो बहुत बीमार लग रही थीं.

"एलेनोर," उन्होंने कर्कश स्वर में कहा,  
"क्या तुम मेरे लिए कुछ बर्फ ला सकती हो?  
मेरे गले में बहुत दर्द है. थोड़ा सा बर्फ का पानी  
मेरे दर्द को शांत करेगा."

वो सुनकर एलेनोर जम गई.

एलेनोर अपनी आंटी के लिए भला बर्फ कैसे लाती?  
बर्फ के लिए उसे नीचे जाना होता.

घर के सबसे अँधेरे कमरे में - नीचे तहखाने में!







लेकिन एलेनोर अपनी आंटी से  
बहुत प्यार करती थी.  
उसे उनकी मदद करनी ही होगी.  
एलेनोर ने एक गहरी सांस लेकर  
एक मोमबत्ती जलाई.  
फिर उसने बर्फ की बाल्टी उठाई  
और हॉल से नीचे चली.

जब वह तहखाने के दरवाजे पर पहुंची,  
तब एलेनोर रुकी.

उसे लगा जैसे उसने कुछ शोर सुना हो -

और वो शोर तहखाने से आ रहा था!

क्या वो मुड़कर वापिस चली जाए?

पर फिर... उसकी आंटी क्या कहेंगी?




धीरे-धीरे एलेनोर ने तहखाने (बेसमेंट)  
का दरवाजा खोला.

वहां एकदम घुप्प अंधेरा था.

वो पीछे मुड़ना चाहती थी.

लेकिन, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था,  
वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई.





नीचे की सीढ़ी पर एलेनोर ने  
एक और खरोंचने की आवाज़ सुनी.  
इस बार, उसे पता था कि वो आवाज़ असली थी.  
वो अपनी मोमबत्ती को उस तरफ ले गई  
और उसने नीचे कुछ देखा:

एक चूहा!

चूहा एक झटके के साथ फर्श पर गिरा,  
फिर वो एक कोने में, जाकर छिप गया  
और नज़र से बाहर हो गया.





एलेनोर ने एक गहरी सांस ली.  
अब वो तहखाने तक तो आ चुकी थी.  
उसे कुछ बर्फ वापस लेकर जाना था.  
लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी.  
उसे यह नहीं पता था  
कि आइसबॉक्स कहाँ रखा था.  
बिल्कुल नहीं!  
और तहखाने में घोर अंधेरा था ...

धीरे-धीरे, एलेनोर तहखाने के अंदर गई.  
वहां उसने एक छोटा दरवाजा देखा  
वो सिर्फ एक दरार जैसा था.  
उस दरवाजे के सामने खड़े होकर  
उसे अचानक ठंड का अहसास हुआ.  
क्या वहां कोई था?







एलेनोर वहां से भागना चाहती थी,  
लेकिन अब वो बर्फ के बिना नहीं जा सकती थी.  
एक और गहरी सांस लेते हुए  
उसने उस छोटे से कमरे के  
उस छोटे दरवाज़े को खोला.

बर्फ का बक्सा!





जैसे ही उसने आइसबॉक्स खोला,  
एलेनोर को अपने पूरे चेहरे पर  
कुछ चिपचिपा महसूस हुआ.  
"मकड़ियां!" एलेनोर चिल्लाई.

जैसे ही उसने मकड़ी के जालों को  
साफ़ करना शुरू किया,  
उसके हाथ से बाल्टी  
और मोमबत्ती गिर गई.  
मोमबत्ती बुझ गई.





अब, वहां पहले से कहीं अधिक गहरा अँधेरा था,  
लेकिन एलेनोर भागी नहीं.

वो अब इतनी दूर आई थी,

और उसकी आंटी को बर्फ की जरूरत थी.

उसके पास करने को केवल एक ही काम बचा था.

उसने बाल्टी उठाई और उसमें बर्फ भर डाला.

तहखाने के दरवाजे पर वापस जाते समय,  
एलेनोर कुछ चीजों से टकराई.  
उन्होंने उसके दिल को झकझोरा.  
लेकिन वो बर्फ की एक पूरी बाल्टी के साथ  
तहखाने से बाहर निकली!



फिर मुस्कराते हुए एलेनोर सीढ़ियों  
पर कूदती, उछलती हुई अपनी आंटी  
के कमरे में गई.





"एलेनोर!" उसकी आंटी ने कहा.

"मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी.

अंधेरा बहुत डरावना हो सकता है."

"हाँ," एलेनोर ने कहा,

"पर आप मेरी चिंता न करें. मैं ठीक हूँ!"

एलेनोर ने गर्व से आंटी को बर्फ की बाल्टी सौंप दी.

उस रात के बाद से एलेनोर का डर कुछ कम हुआ.  
उसके बाद पूरे जीवन भर एलेनोर हमेशा  
अपने डर का डटकर सामना करती रही.





एलेनोर रूजवेल्ट बड़ी होकर हीरो बनीं.  
उन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त की  
और एक प्रसिद्ध सार्वजनिक वक्ता  
और एक साहसी प्रथम महिला बनीं.  
एलेनोर ने कभी भी अपने डर को  
दूसरे लोगों की मदद करने के  
रास्ते में आड़े आने नहीं दिया.

## एलेनोर रूजवेल्ट के जीवन की समय-रेखा :

1884 एलेनोर रूजवेल्ट का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ

1892 एलेनोर की मां का निधन; एलेनोर अपनी दादी के साथ रहीं

1894 एलेनोर के पिता का निधन

1899 एलेनोर को इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया

1905 एलेनोर ने न्यूयॉर्क शहर में भावी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से शादी की

1920 एलेनोर महिलाओं के वोट देने के अधिकार के लिए समर्पित संगठन, लीग ऑफ वीमेन वोटर्स में शामिल हो गईं

1924 एलेनोर ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में मुख्य भाषण दिया

1932 एलेनोर अमेरिका की "फर्स्ट-लेडी" बनीं

1933 एलेनोर ने महिला पत्रकारों के लिए व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की; एलेनोर गरीबों, महिलाओं और अफ्रीकी अमेरिकियों की चैंपियन बनीं

1939 एलेनोर ने नस्लवाद के विरोध में अमेरिकी "क्रांति की बेटियों" से इस्तीफा दिया

1945 फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का निधन; द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त

1946 एलेनोर को संयुक्त राष्ट्र में पहले अमेरिकी प्रतिनिधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया

1948 एलेनोर ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को पारित करने में मदद की

1962 एलेनोर रूजवेल्ट की एक स्ट्रोक से मृत्यु हो गई

समाप्त